

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 484] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1979/अग्रहायण 1, 1901
No. 484] NEW DELHI, THURSDAY, NOV., 22, 1979/AGRAHAYANA 1, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1979

क्रा० प्रा० 744(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की
उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, तारीख 12 अक्टूबर,
1979 को अपनी अधिसूचना सं० 434/अरूणाचल/79(1) में नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त,
नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट अरूणाचल प्रदेश के प्रत्येक आफिसर को, ऐसे सरकारी
आफिसर के सामने उस सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के
संमदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए
सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
1. अरुणाचल, पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	1. अतिरिक्त सहायक आयुक्त, सेप्पा । 2. अतिरिक्त सहायक आयुक्त, सागली ।
2. अरुणाचल, पूर्व संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	1. सहायक आयुक्त, बोस्लेंग । 2. अतिरिक्त सहायक आयुक्त, बक्रो । 3. अतिरिक्त सहायक आयुक्त, क्रोनली । 4. अतिरिक्त सहायक आयुक्त, टुटिंग । 5. अतिरिक्त सहायक आयुक्त, मेबो ।

[सं० 434/अरुणाचल/79 (1)]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1979

S. O. 744(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints each of the officers of Government of Arunachal Pradesh as specified in column 2 of the Table below, in addition to the Officers appointed in its notification No. 434/ARUN/79(1) dated 12 October, 1979 to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the Union Territory of Arunachal Pradesh specified in column 1 of the said Table against such Officer of Government in the performance of the functions of such Returning Officer :—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
1. Returning Officer of 1-Arunachal West Parliamentary Constituency	1. Extra Assistant Commissioner, Seppa. 2. Extra Assistant Commissioner, Sagalee.
2. Returning Officer of 2-Arunachal East Parliamentary Constituency	1. Assistant Commissioner Walong. 2. Extra Assistant Commissioner, Wakro. 3. Extra Assistant Commissioner Kronli. 4. Extra Assistant Commissioner Tuting. 5. Extra Assistant Commissioner Mebo.

[No. 434/ARUN/79(1)]

K. GANESAN, Secy.